



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं० 16 ] नई दिल्ली, अप्रैल 13—अप्रैल 19, 2008, शनिवार/चैत्र 24—चैत्र 30, 1930  
No. 16 ] NEW DELHI, APRIL 13—APRIL 19, 2008, SATURDAY/CHAITRA 24—CHAITRA 30, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुस्तक संकलन के रूप में रख जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि के अंतर्गत  
बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें सामान्य प्रकार के आदेश, उप-विधायन आदि सम्मिलित हैं )  
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the  
Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the  
Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

( राजभाषा विभाग )

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2008

सा. का. नि. 64. — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना (दफ्तरी) भर्ती नियम, 1995 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना में दफ्तरी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना (दफ्तरी) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपावर्ग अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
दफ्तरी	11* (2008) (उत्तर-7 मध्य-1 पश्चिम-1 पूर्व-1 दक्षिण-1) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, ('समूह 'घ') (अराजपत्रित)	2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं					
7	8	9			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता			

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा
10	11	12
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : अपने अपने क्षेत्रों के ऐसे चपरासी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 4 वर्ष नियमित सेवा की है।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13		14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :		लागू नहीं होता
क. उत्तरी क्षेत्र के लिए		
1. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान	—अध्यक्ष	
2. उप निदेशक (उत्तर/परीक्षा) हिन्दी शिक्षण योजना	—सदस्य	
3. अन्य विभाग/संगठन का राजपत्रित अधिकारी	—सदस्य	
ख. अन्य क्षेत्रों के लिए		
1. उप निदेशक, संबंधित क्षेत्र	—अध्यक्ष	
2. सहायक निदेशक, संबंधित क्षेत्र	—सदस्य	
3. अन्य विभाग/संगठन का राजपत्रित अधिकारी	—सदस्य	

[ का. सं. 14034/50/2003-रा.भा. (प्रशिक्ष.) ]

विजय कुमार गुप्ता, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल भर्ती नियम, 1995 भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) सा.का.नि. सं. 463 तारीख 28 अक्टूबर, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 11th April, 2008

G.S.R. 64.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme (Daftary) Recruitment Rules, 1995 except as respect thing done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Daftary in the Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme (Daftary) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

**4. Disqualification.—No person—**

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or  
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of the post	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Daftry	11* (2008) (North—7 Central—1 West—1 East—1 South—1) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted)	Rs. 2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000	Non-selection	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	
7		8		9	
Not applicable		Not applicable		Not applicable	
Period of probation if any		Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion deputation/absorption to be made	
10		11		12	
Not applicable		By promotion		Promotion : Peons of the respective regions who have rendered at least 4 years regular service in the grade	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'D' Departmental Promotion Committee :

Not applicable

A. For Northern Region :

1. Administrative Officer, Central Hindi Training Institute — Chairman
2. Deputy Director (North/Exam), Hindi Teaching Scheme — Member
3. A Gazetted Officer from other Department/ Organisation — Member

B. For other Regions :

1. Deputy Director of respective region — Chairman
2. Assistant Director of respective region — Member
3. Gazetted Officer from other Department/ Organisation — Member

[File No. 14034/50/2003-OL (Trg.)]

V. K. GUPTA, Under Secy.

Footnote :— The Principal Recruitment Rules 1995 were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R. No. 463 dated 28th October, 1995.

### खान सुरक्षा महानिदेशालय

(अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड का कार्यालय)

धनबाद, 7 अप्रैल, 2008

सा. का. नि. 65.— धातु खान विनियम 1961 के विनियम 13 (4) के प्रावधानों के तहत परीक्षा के संचालन एवं सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने से संबंधित उप-नियमों, जिनका संबंध कदाचार हेतु दण्ड से है, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

क्रमांक	सक्षमता प्रमाण पत्र	उप-नियम संख्या	वर्तमान उप-नियम	संशोधित उप-नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रबंधक प्रमाण पत्र	11	दुराचरण हेतु दण्ड :	दुराचरण हेतु दण्ड :
2.	खान सर्वेक्षक प्रमाण पत्र	9	कोई भी अभ्यर्थी जो झूठा या जाली प्रमाण पत्र जमा करता है या झूठी घोषणा करता है या परीक्षा के दौरान कदाचार करता है, को बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित अवधि जो कि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी, के लिए भविष्य में किसी भी परीक्षा में बैठने से भी विवर्जित किया जा सकता है।	कोई भी अभ्यर्थी जो झूठा या जाली प्रमाण पत्र जमा करता है या झूठी घोषणा करता है या परीक्षा के दौरान कदाचार करता है, को बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित अवधि के लिए भविष्य में किसी भी परीक्षा में बैठने से विवर्जित किया जा
3.	खान सर्वेक्षक प्रमाण पत्र खुली खनन कार्ययुक्त सीमित खानों के लिए	9		
4.	खान फोरमैन प्रमाण पत्र	9		
5.	खान मेट प्रमाण पत्र	3		
6.	ब्लास्टर प्रमाण पत्र	1(5)		
7.	ब्लास्टर प्रमाण पत्र खुली खनन कार्ययुक्त सीमित खानों के लिए	1(4)		
8.	वाइलडिंग इंजनमैन प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी प्रमाण पत्र	5(2)		
9.	गैस जाँच प्रमाण पत्र	9(1)		

[संख्या-बोर्ड/धातु/1123/2008]

एम. एम. शर्मा, खान सुरक्षा महानिदेशक, सह अध्यक्ष

**DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY****(Office of the Chairman, Board of Mining Examinations (Coal))**

Dhanbad, the 7th April, 2008

**G. S. R. 65.**—In pursuance of the provisions of Regulation 13 (4) of the Metalliferous Mines Regulation, 1961, the bye-laws for the conduct of examination and grant of certificate of Competency so far as they relate to penalty for misconduct are hereby amended as follows :

S. No.	Certificate of Competency	Bye-law No.	Existing bye-law	Amended bye-law
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Manager's Certificate	11	<b>Penalty for misconduct :</b>	<b>Penalty for misconduct :</b>
2.	Mine Surveyor's Certificate	9	Any candidate who submits a	Any candidate who submits a
3.	Mine Surveyor's Certificate Restricted to mines having opencast workings only	9	false certificate or counterfeits certificate or makes a false declaration or adapts unfair means during the examination, may be disqualified by the Board and also debarred from appearing at any subsequent examination for a specified period not exceeding three years depending upon the facts of the case.	false certificate or counterfeits certificate or makes a false declaration or adapts unfair means during the examination, may be disqualified by the Board and also debarred from appearing at any subsequent examination for a specified period depending upon the facts of the case.
4.	Mine Foreman's Certificate	9		
5.	Mining Mate's Certificate	3		
6.	Blaster's Certificate	1(5)		
7.	Blaster's Certificate Restricted to mines having opencast workings only	1(4)		
8.	Winding Engineman's I Class and II Class Certificate	5(2)		
9.	Gas Testing Certificate	9(1)		

[No. Board/MetaV/1123/2008]

M.M. SHARMA, Director General of Mines Safety &amp; Chairman

धनबाद, 7 अप्रैल, 2008

**सा. का. नि. 66.**—कोयला खान अधिनियम 1957 के विनियम 13 (4) के प्रावधानों के तहत परीक्षा के संचालन एवं सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने से संबंधित उप-नियमों, जिनका संबंध कदाचार हेतु दण्ड से है, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

क्रमांक	सक्षमता प्रमाण पत्र	उप-नियम संख्या	वर्तमान उप-नियम	संशोधित उप-नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रबंधक प्रमाण पत्र	11	<b>दुराचरण हेतु दण्ड :</b>	<b>दुराचरण हेतु दण्ड :</b>
2.	खान सर्वेक्षक प्रमाण पत्र	9	(1) कोई भी अभ्यर्थी जो झूठा या	(1) कोई भी अभ्यर्थी जो झूठा या
3.	औषधरत्न प्रमाण पत्र	11	जाली प्रमाण पत्र जमा करता है या झूठी घोषणा करता है या परीक्षा के दौरान कदाचार करता है, को बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित अवधि जो कि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी, के लिए भविष्य में किसी भी परीक्षा में बैठने से भी विवर्जित किया जा सकता है।	जाली प्रमाण पत्र जमा करता है या झूठी घोषणा करता है या परीक्षा के दौरान कदाचार करता है, को बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित अवधि के लिए भविष्य में किसी भी परीक्षा में बैठने से विवर्जित किया जा सकता है।
4.	सरदार प्रमाण पत्र	11		
5.	शॉटफायर प्रमाण पत्र	11		
6.	वाइन्डिंग इंजनमैन प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी प्रमाण पत्र	10		
7.	गैस जाँच प्रमाण पत्र	9		

[ संख्या. बोर्ड/कोल/1124/2008 ]

एम.एम. शर्मा, खान सुरक्षा महानिदेशक, सह अध्यक्ष

Dhanbad, the 7th April, 2008

G.S.R. 66.—In pursuance of the provisions of Regulation 13 (4) of the Coal Mines Regulation, 1957, the bye-laws for the conduct of examination and grant of certificate of competency so far as they relate to penalty for misconduct are hereby amended as follows :

S. No.	Certificate of Competency	Bye-law No.	Existing bye-law	Amended bye-law
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Manager's Certificate	11	<b>Penalty for misconduct :</b>	<b>Penalty for misconduct :</b>
2.	Mine Surveyor's Certificate	9	(1) Any candidate who submits	(1) Any candidate who submits
3.	Overman's Certificate	11	a false certificate or counterfeits	a false certificate or counterfeits
4.	Sirdar's Certificate	11	certificate or makes a false de-	certificate or makes a false de-
5.	Shot-firer's Certificate	11	claration or adapts unfair means	claration or adapts unfair means
6.	Winding Engineman's I Class	10	during the examination, may	during the examination, may
	and II Class Certificate.		be disqualified by the Board	be disqualified by the Board
7.	Gas Testing Certificate	9	and also debarred from appear-	and also debarred from appear-
			ing at any subsequent exami-	ing at any subsequent exami-
			nation for a specified period	nation for a specified period
			not exceeding three years	depending upon the facts of the
			depending upon the facts of	case.
			the case.	

[No. Board/Coal/112-4/2008]

M.M. SHARMA, Director General of Mines Safety &amp; Chairman

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

( स्थापना 1 अनुभाग )

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2008

सा. का. नि. 67.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय में अनुरक्षण और सभा अधिकारी (समूह 'ख' अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में अनुरक्षण और सभा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, अनुरक्षण और सभा अधिकारी (समूह 'ख', अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपायुक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वास्त, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
अनुस्क्षण और सभा अधिकारी	1* (2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसंधितीय	5500-175- 9000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	
7		8		9	
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
परिवर्तन की अवधि, यदि कोई हो		भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
10		11		12	
लागू नहीं होता		प्रतिनियुक्ति		प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :	
				(क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर संदृश पद धारण किया हुआ है; या	
				(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या	



(iii) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में 4500-7000 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की है; या

(iv) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में 4000-100-6000 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; और

(ii) कार्यालय भवन के रखरखाव और अनुरक्षण तथा सभाओं/सम्मेलनों के प्रबंध में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर माह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

स्थापन नहीं होता

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फ. सं. ए.-12018/1/2007-स्था. 1]

पूर्णिमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

(Establishment I Section)

New Delhi, the 15th April, 2008

G.S.R. 67.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Shipping, Maintenance and Meeting Officer (Group B, Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2001 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Maintenance and Meeting Officer in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Maintenance and Meeting Officer (Group B, Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Maintenance and Meeting Officer	1* (2008) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	
7		8		9	
Not applicable		Not applicable		Not applicable	

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
10	11	12
Not applicable	Deputation	<p><b>Deputation :</b> Officers of the Central Government,</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; or</p> <p>(iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadre/department; or</p> <p>(iv) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4000-100-6000 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>(i) Matriculation of a recognized University/Board or equivalent.</p> <p>(ii) three years experience in up-keep and maintenance of office building and arrangements of meetings/conferences.</p> <p><b>Note :</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13		14
Not applicable		Consultation with Union Public Service Commission not necessary

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(विकास आयुक्त का कार्यालय)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2008

सा. का. नि. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन (समूह "क" और समूह "ख") (राजपत्रित) पद भर्ती नियम, 1996 की, जहां तक उनका संबंध निदेशक (हौजरी) उप निदेशक (हौजरी) और सहायक निदेशक (श्रेणी 1) (हौजरी) के पदों से है, उन बातों के सिवाय आंशिक रूप से अधिकांश करते जिन्हें ऐसे अधिष्ठापन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के कार्यालय में निदेशक (हौजरी), उप निदेशक (हौजरी) और सहायक निदेशक (श्रेणी 1) (हौजरी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय, समूह 'क' पद (हौजरी विद्या) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : यह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. निदेशक (हौजरी)	1* (2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'क') राजपत्रित; अननुसंधीय	12000-375- 16500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति धन प्रोन्नति)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

12

प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) धन प्रोन्नति :—

1. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी—

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 10000-325-15200 रुपये या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :—

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बस्त्र या हौजरी या बुनाई प्रौद्योगिकी या समतुल्य में डिग्री या समतुल्य।
- (ii) किसी तकनीकी संगठन या अनुसंधान संगठन या शैक्षिक संगठन में या हौजरी या बुने उत्पाद या बने-बनाए वस्त्रों के विनिर्माण में लगे औद्योगिक समुत्थान में दस वर्ष का अनुभव।

बोझनीय : हौजरी या बुने उत्पाद या बने-बनाए वस्त्रों के विनिर्माण में आधुनिक मशीनों, उपस्कर और यंत्रों के उपयोग और उत्पादन की नवीनतम तकनीकों की जानकारी।

2. ऐसे विभागीय उच्च निदेशक (हौजरी) पर, जिन्होंने 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, बाहर बाह्य के साथ विचार किया जाएगा और उसके पद पर नियुक्ति के लिए न्यून किए जाने की दशा में वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13	14
लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
2. उप निदेशक (हौजरी)	1* (2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	10000-325-15200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

12

**प्रोन्नति :** 8000-275-13500 रुपए के वेतनमान में ऐसा सहायक निदेशक (श्रेणी-1) (हौजरी) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

**टिप्पणी :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) :**

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी—

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8000-275-13500 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :—

**आवश्यक :**

- (i) किसी सान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वस्त्र या हौजरी या बुनाई औद्योगिकी या समतुल्य में डिग्री या समतुल्य।
- (ii) किसी तकनीकी संगठन या शैक्षिक संगठन में या हौजरी या बुने उत्पाद या बने-बनाए वस्त्रों के विनिर्माण में लगे औद्योगिक समुस्थान में पांच वर्ष का अनुभव।

**वांछनीय :** हौजरी या बुने उत्पाद या बने-बनाए वस्त्रों के विनिर्माण में आधुनिक मशीनों, उपस्कर और यंत्रों के उपयोग और उत्पादन की नवीनतम तकनीकों की जानकारी।

**टिप्पण :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इसे नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर या ह्रास पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

13			14		
<b>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए ) :</b>			किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।		
1. औद्योगिक सलाहकार	—अध्यक्ष				
2. संयुक्त विकास आयुक्त	—सदस्य				
3. निदेशक (हौजरी)	—सदस्य				
1	2	3	4	5	6
3. सहायक निदेशक (श्रेणी-1)(हौजरी)	2* (2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचितीय	8000-275-13500 रु.	चयन	लागू नहीं होता
7			8		
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		
9	10		11		
लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष		प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।		

प्रोन्नति : 6500-200-10500 रुपए के वेतनमान में ऐसा सहायक निदेशक (श्रेणी-2) (होजरी) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति** ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी—

- (क) (i) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या
- (ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में 6500-10500 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :—

**आवश्यक :**

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कस्त्र या होजरी या बुनाई प्रौद्योगिकी या समतुल्य में डिग्री या समतुल्य।
- (ii) किसी तकनीकी संगठन या शैक्षिक संगठन में या होजरी या बुने उत्पाद या बने-बनाए कस्त्रों के विनिर्माण में लगे औद्योगिक समुस्थान में तीन वर्ष का अनुभव।

**वांछनीय :** होजरी या बुने उत्पाद या बने-बनाए कस्त्रों के विनिर्माण में आधुनिक मशीनों, उपस्कर और यंत्रों के उपयोग और उत्पादन की नवीनतम तकनीकों की जानकारी।

**टिप्पण :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी संक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[ प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ]

**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए ) :**

- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
- 2. संयुक्त या अपर विकास आयुक्त या औद्योगिक सलाहकार, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय —सदस्य
- 3. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के कार्यालय का एक निदेशक —सदस्य

प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।



**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES****(Office of the Development Commissioner)****(Micro, Small and Medium Enterprises)**

New Delhi, the 4th April, 2008

**G.S.R. 68.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in the partial supersession of the Ministry of Industry, Small Industry Development Organisation Group 'A' and 'B' (Gazetted) Posts Recruitment Rules, 1996, insofar as they relate to the posts of Director (Hosiery), Deputy Director (Hosiery) and Assistant Director (Grade I) (Hosiery) in the then Ministry of Industry, Small Industry Development Organisation, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director (Hosiery), Deputy Director (Hosiery) and Assistant Director (Grade I) (Hosiery) of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Office of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises), namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Office of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises), Group 'A' Posts (Hosiery Discipline) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, the age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**5. Disqualification.**—No person :

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether the benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Director (Hosiery)	1* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'A'), Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 12000-375-16500	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits	
7		8	
Not applicable		Not applicable	
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	
9	10	11	
Not applicable	Not applicable	Composite method (Deputation plus Promotion)	
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
12	13	14	
<b>Deputation (including short-term contract) plus Promotion :</b> 1. Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations — (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: <b>Essential :</b> (i) Degree in Textiles or Hosiery or Knitting Technology or equivalent from a recognised Universities or Institutions or equivalent. (ii) Ten years experience in a Technical Organisation or Research Organisation or Educational Organisation or industrial concern in manufacture of Hosiery or Knitted product or Readymade Garments.		Not applicable	
		Consultation with Union public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.	

**Desirable.**—Knowledge of latest techniques of production and use of modern machinery. Equipment and tools in the manufacture of Hosiery or Knitted Products or Readymade Garments.

2. The Departmental Deputy Director (Hosiery) with five years regular service in the scale of pay Rs. 10000-325-15200 shall also be considered alongwith outsiders. If he or she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

**Note.**—The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications]

1	2	3	4	5	6
2. Deputy Director (Hosiery)	1*(2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 10000-325-15200	Selection	Not applicable
7		8			
Not applicable		Not applicable			
9		10		11	
Not applicable		Not applicable		Promotion failing which by deputation (including short term contract)	

12	13	14
<p><b>Promotion :</b> Assistant Director (Grade I) (Hosiery) in the scale of pay Rs. 8000-275-13500 with five years' regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation (including short-term contract) :</b> Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations :—</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience;</p> <p><b>Essential :</b></p> <p>(i) Degree in Textiles or Hosiery or Knitting Technology or equivalent from a recognised Universities or Institutions or equivalent.</p> <p>(ii) Five years experience in a Technical Organisation or Educational Organisation or Industrial concern in manufacture of Hosiery or Knitted product or Readymade Garments.</p> <p><b>Desirable :</b> Knowledge of latest techniques of production and use of modern machinery. Equipment and tools in the manufacture of Hosiery or Knitted Products or Readymade Garments.</p> <p><b>Note :</b> The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industrial Adviser—Chairman</li> <li>2. Joint Development Commissioner—Member</li> <li>3. Director (Hosiery)—Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).</p>

12

[Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications].

1	2	3	4	5	6
3. Assistant Director (Grade I) (Hosiery)	2* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Selection	Not applicable
7		8			
Not applicable		Not applicable			
9		10		11	
Not applicable		Two years for promotees		Promotion failing which by deputation (including short term contract)	
12		13		14	
<b>Promotion :</b> Assistant Director (Grade II) (Hosiery) in the scale of pay Rs. 6500-200-10500 with five years' regular service in the grade.  <b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		<b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)</b>  1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman  2. Joint or Additional Development Commissioner or Industrial Adviser Office of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) —Member  3. A Director of the office of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) —Member		Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.	

**Deputation (including short-term contract) :**

Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations :—

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years' regular service in grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience.

**Essential :**

(i) Degree in Textiles or Hosiery or Knitting Technology or equivalent from a recognised Universities or Institutions or equivalent.

(ii) Three years' experience in a Technical Organisation or Educational Organisation or Industrial concern in manufacture of Hosiery or Knitted product or Readymade Garments.

**Desirable :** Knowledge of latest techniques of production and use of modern machinery, Equipment and tools in the manufacture of Hosiery or Knitted Products or Readymade Garments.

**Note :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of application.]

[F. No. A-12018/2/2004-A(G)]

MAHINDER SINGH, Dy. Director (Administration)

## कृषि मंत्रालय

## (कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2008

सा. का. वि. 69.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में कीट विज्ञानी (कीटनाशक) भर्ती नियम, 1974, (उप-निदेशक, कीट विज्ञान) भर्ती नियम, 1977, संयुक्त निदेशक (व. रो. वि.) और संयुक्त निदेशक (की.वि.) भर्ती नियम, 1987 और संयुक्त निदेशक (जैव निर्धारण) एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव-निर्धारण) भर्ती नियम, 1991 को जहाँ तक उनका संबंध संयुक्त निदेशक (कीट-विज्ञान) के पद से है उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के अधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में संयुक्त निदेशक (कीट विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय संयुक्त निदेशक (कीट विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा, जो इन नियमों में उपायुक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्थीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिक्षित करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संय लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वास्तव, आदेश द्वारा शिक्षित कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
संयुक्त निदेशक (कीट विज्ञान)	4* (चार) (2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिकीय)	12000-375- 16500 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

7	8
नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

12

**प्रोन्नति :**

उप-निदेशक (कीट विज्ञान) जिसने 10000-15200 रु. के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :**

केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त या कानूनी संगठन अर्द्ध सरकारी/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या परिषदों के ऐसे अधिकारी :

(क) (1) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सद्गुण पद धारण किए हुए हैं; या

(2) मूल संवर्ग/विभाग में जिन्होंने 10000-15200 रुपये के या समतुल्य वेतनमान में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या कृषि विज्ञान एस.एस.सी. डिग्री या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता सहित कृषि में एम.एस.सी. डिग्री या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता सहित प्राणि विज्ञान में एम.एस.सी. डिग्री या समतुल्य।

(2) वनस्पति संरक्षण से संबंधित कीट विज्ञान के क्षेत्र में प्रबंधक के रूप में दस वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

(नोटक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]



यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)

जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण) — सदस्य
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.) — सदस्य
4. भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार — सदस्य
5. निदेशक/उप सचिव (वनस्पति संरक्षण) — सदस्य

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अत्यन्तकालिक संपिदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन करने/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[मिसिल संख्या 13-3/99 पी.पी.-II]

मीरा हार्मा, अवर सचिव

### MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 2nd April, 2008

G.S.R. 69.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Entomologist (Insecticides) Recruitment Rules, 1974 (Deputy Director Entomology) Recruitment Rules 1977, Joint Director (Plant Pathology) and Joint Director (Entomology) Recruitment Rules, 1987, and Joint Director (Bioassay) and Junior Scientific Officer (Bioassay) Recruitment Rules 1991, insofar as they relate to the post of Joint Director (Entomology) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Entomology) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage under the Ministry of Agriculture, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Joint Director (Entomology) Recruitment Rules, 2008.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of the said post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment of the said post, age limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

*Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.*

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Joint Director (Entomology)	4 (Four)* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs. 12000-375-16500	Selection	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible Educational and other qualification required for direct recruits					
7				8	
No				Not applicable	
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any		Method of recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/Absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	
9		10		11	
Not applicable		Not applicable		Promotion failing which, by deputation (including short-term contract)	
In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption, grades from which Promotion/Deputation/Absorption is to be made		If a DPC exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
12		13		14	
<b>Promotion :</b>		<b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :</b>		Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract) and for amendment/	
Deputy Director (Entomology) in the pay scale of Rs. 10000-15200 with five years regular service in the grade.		1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman			

12	13	14
<b>Deputation (including short-term contract) :</b> Officers under the Central/State Governments/ Union Territories/Public Sector Undertakings/ Semi-Government/Autonomous or Statutory Organizations/Agricultural Universities/ Recognized Research Institutions or Councils :	2. Joint Secretary (Plant Protection) —Member 3. Joint Secretary (Administration) —Member 4. Plant Protection Adviser to the Government of India—Member	relaxation of any provision of these Recruitment Rules.
(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or		
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre/Department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience;		
(i) M. Sc. Degree in Entomology or Nematology or M. Sc. Degree in Agriculture with specialization in Entomology or M.Sc. Degree in Zoology with specialization in Entomology from a recognized University or equivalent.		
(ii) Ten years practical experience in Managerial capacity in Entomology related to Plant Protection.		
The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications].		

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2008

सा. का. नि. 70.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में उप-निदेशक (जैव निर्धारण) और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव निर्धारण) भर्ती नियम, 1991 को, जहां तक उनका संबंध संयुक्त निदेशक (जैव निर्धारण) के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के अधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में संयुक्त निदेशक (खरपतवार विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय संयुक्त निदेशक (खरपतवार विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान ये होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संय लोका सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की यावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा
1	2	3	4	5	6
संयुक्त निदेशक (खरपतवार विज्ञान)	1* (एक) (2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसूचीय)	12000-375- 16500 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुवृत्त है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिसदता</p>			
11	12		
<p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संचिदा भी हैं)।</p>	<p><b>प्रोन्नति :</b> उप-निदेशक (खरपतवार विज्ञान) जिसने 10,000-375-15,200 रु. के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में एम.एस.सी. डिग्री जिसमें सस्य विज्ञान/खरपतवार विज्ञान/खरपतवार नियंत्रण एक विषय के रूप में रहा हो या वनस्पति विज्ञान या कृषि वनस्पति विज्ञान में एम.एस.सी. डिग्री जिसमें खरपतवार विज्ञान/खरपतवार नियंत्रण एक विषय के रूप में रहा हो या समतुल्य।</p> <p><b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति ( जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संचिदा भी हैं ) :</b> केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त या कानूनी संगठन अर्द्ध सरकारी/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या परिषदों के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क)(1) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(2) मूल कांडर/विभाग में जिन्होंने 10000-15200 रु. के या समतुल्य वेतनमान में उस पद पर नियुक्ति के पर्याप्त नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :</p> <p>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में एम.एस.सी. डिग्री जिसमें सस्य विज्ञान/खरपतवार विज्ञान/खरपतवार नियंत्रण एक विषय के रूप में रहा हो अथवा वनस्पति विज्ञान अथवा कृषि वनस्पति विज्ञान में एम.एस.सी. डिग्री अथवा समतुल्य।</p> <p>(2) अनुप्रयुक्त सस्य विज्ञान/खरपतवार विज्ञान/खरपतवार नियंत्रण में 12 वर्ष का अनुभव।</p>		

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति को सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धरित किसी अन्य काठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :

1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग
2. संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.)
4. भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार
5. निदेशक/उप सचिव (वनस्पति संरक्षण प्रभाग)

—अध्यक्ष  
—सदस्य  
—सदस्य  
—सदस्य  
—सदस्य

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन करने/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फि.सं. 13-3/99 पी.पी.-II]

नीरा शर्मा, अपर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2008

**G.S.R. 70.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Joint Director (Bioassay) and Junior Scientific Officer (Bioassay) Recruitment Rules, 1991 insofar as they relate to the post of Joint Director (Bioassay), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Weed Science) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage under the Ministry of Agriculture, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Joint Director (Weed Science) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Joint Director (Weed Science)	1*(One) (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service (Group 'A'), Gazetted Non-Ministerial	Rs. 12000-375-16500	Selection	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible		Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
7		8	9		10
Not applicable		Not applicable	Not applicable		Not applicable
Method of recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/Absorption and percentage of the posts to be filled by various methods			In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption, grade from which Promotion/Deputation/Absorption is to be made		
11			12		
Promotion failing which by deputation (including short term contract)			<p><b>Promotion :</b></p> <p>Deputy Director (Weed Science) in the pay scale of Rs. 10000-15200 with five years' regular service in the grade and possessing the following qualifications :</p> <p>M.Sc. Degree in Agriculture with Agronomy/Weed Science/Weed Control as a subject or M.Sc. Degree in Botany or Agricultural Botany with Weed Science/Weed Control as a subject from a recognized University or equivalent.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>		

**Deputation (including short-term contract) :**

Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous or Statutory Organizations/Agricultural Universities/Recognized Research Institutions or Councils :

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200 or equivalent in the parent cadre/Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience :
  - (i) M.Sc. (Agriculture) with Agronomy/Weed Science/Weed Control as a subject or M.Sc. Degree in Botany or Agricultural Botany from a recognized University or equivalent;
  - (ii) Twelve years experience in Applied Agronomy/Weed Science/Weed Control.

[The Departmental officers of the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation (including short-term contract) in the another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.]

If a DPC exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :—**

1. Chairman/Member Union Public Service Commission —Chairman
2. Joint Secretary (Plant Protection) —Member
3. Joint Secretary (Administration) —Member
4. Plant Protection Adviser to the Government of India —Member
5. Director/Deputy Secretary (Plant Protection) —Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract) and for amendment/relaxation of any provision of these Recruitment Rules.

[F. No. 13-3/99-PP-II]

NEERA SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2008

सा. का. नि. 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संप्रदाय विदेशालय में समूह क एवं ख तकनीकी पद भर्ती नियम 1968, उप-निदेशक (कीट विज्ञान) भर्ती नियम, 1977 और परिष्कृत वैज्ञानिक अधिकारी (जैव-निर्धारण) भर्ती नियम 1986 को जहाँ तक उनका संबंध उपनिदेशक (कीट विज्ञान) से है। उन बातों के सिवाय अधिज्ञान



करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने से रोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के अधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में उप-निदेशक (कीट विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम ब्रह्मते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय उप-निदेशक (कीट विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा, जो इन नियमों से उपायुक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहर्ता : यह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को सागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाधित, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा
1	2	3	4	5	6
उप-निदेशक (कीट विज्ञान)	13* (तेरह) (2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अनुसूचिकीय)	10,000-325- 15,200 रु.	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों या निदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)  टिप्पणी : आयु-सीमा अनिवारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निम्न अंतिम तारीख होगी तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य के जम्मू

जिले के लाहौल एवं स्पोति जिले एवं पांगी उप-संभाग तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप समूह के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि मान्य नहीं होगी।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
नहीं	<b>आवश्यक :</b> (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कोट विज्ञान या कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या कोट विज्ञान में विशेषज्ञता सहित कृषि विज्ञान में एम.एस.सी. डिग्री या कोट विज्ञान में विशेषज्ञता सहित प्राणि-विज्ञान में एम.एस.सी. डिग्री या समतुल्य। (2) वनस्पति संरक्षण कार्य से संबंधित कोट विज्ञान के क्षेत्र में पर्यवेक्षक के रूप में सात वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।	<b>आयु :</b> नहीं <b>शैक्षिक अर्हता :</b> नहीं लेकिन मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री या वनस्पति विज्ञान या प्राणिविज्ञान विषय सहित स्नातक डिग्री या समतुल्य।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष
<b>टिप्पण 1 :—</b> अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।			
<b>टिप्पण 2 :—</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
<b>वांछनीय :</b> (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कोट विज्ञान या कृषि विज्ञान या कृषि कोट विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री या समतुल्य।			

भर्ती की प्रणति : भर्ती सीधे या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिरूपता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

11

12

66.67% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति :

8000-13500 रु. के वेतनमान में ऐसा सहायक निदेशक (क्रीट विज्ञान) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण :—जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति ( जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) :

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त या कानूनी संगठन अर्द्ध सरकारी/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या परिवर्षों के ऐसे अधिकारी :

- (क) (1) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या  
(2) मूल संवर्ग/विभाग में जिन्होंने 8000-135000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और  
(ख) जिनके पास कालम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं;  
(पेयक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर काल्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं स्थायीकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :

1. संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)—अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रशा.)—सदस्य
3. भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार—सदस्य
4. निदेशक/उप सचिव (वनस्पति संरक्षण प्रभाग)—सदस्य

सीधी भर्ती एवं प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[मि.सं. 13-3/99 पी.पी.-II]

नीता शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2008

**G.S.R. 71.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Group 'A' and 'B' technical posts (Recruitment) Rules 1968, (Deputy Director Entomology) Recruitment Rules 1977 and Senior Scientific Officer (Bioassay) Recruitment Rules 1986, insofar as they relate to the post of Deputy Director (Entomology), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Entomology) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage under the Ministry of Agriculture, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Deputy Director (Entomology) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, the age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 6 of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Deputy Director (Entomology)	13*(Thirteen) (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted Non-Ministerial	Rs. 10000-325-15200	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura.

6

Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep.

Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
No	<p><b>Essential :</b></p> <p>(i) Master of Science Degree in Entomology or Nematology or Master of Science Degree in Agriculture with specialization in Entomology or Master of Science Degree in Zoology with specialization in Entomology from a recognized University/Institute or equivalent.</p> <p>(ii) Possessing seven years practical experience in supervisory capacity in the field of Entomology related to Plant Protection work.</p> <p><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable for reasons to be recorded at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p> <p><b>Desirable :</b></p> <p>(i) Doctorate Degree in Entomology or Nematology or Agricultural Entomology from a recognised University/Institute or equivalent.</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational Qualification : No</p> <p>But must possess B.Sc. in Agriculture or B.Sc. with Botany or Zoology as a subject from a recognized University/Institute or equivalent.</p>	1 year for Direct Recruits

Method of recruitment, whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/Absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption, grades from which Promotion/Deputation/Absorption is to be made
11	12
66.67% promotion failing which by deputation (including short-term contract) 33.33% deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	<p><b>Promotion :</b>  Assistant Director (Entomology) in the pay scale of Rs. 8000-13500 with five years' regular service in the grade.  <b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b>Deputation (including short-term contract) :</b>  Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous or Statutory Organizations/Agricultural Universities/Recognized Research Institutions or Councils :</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or  (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 8000—13500 or equivalent in the parent cadre/Department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.]</p>

If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Plant Protection)—Chairman</li> <li>2. Joint Secretary (Administration)—Member</li> <li>3. Plant Protection Adviser to the Government of India—Member</li> <li>4. Director/Deputy Secretary (Plant Protection)—Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short-term contract).</p>

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2008

सा. का. नि. 72.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में वनस्पति-संरक्षण संगरोध निदेशालय, सस्य वैज्ञानिक (शाकनाशी) भर्ती नियम, 1979, उप-निदेशक (खरपतवार विज्ञान) भर्ती नियम, 1993 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के अधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में उप-निदेशक (खरपतवार विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय उप-निदेशक (खरपतवार विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति.—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।

6. व्याप्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, बल्कि केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अवयव पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
उप-निदेशक (खरपतवार विज्ञान)	3* (तीन) (2008) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित (अननुसूचीय)	10000-325- 15200 रु.	चयन	लागू नहीं

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

7

8

हां

आवश्यक :

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सस्य विज्ञान/खरपतवार विज्ञान/खरपतवार नियंत्रण के साथ कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री या खरपतवार विज्ञान विषय के साथ वनस्पति विज्ञान या कृषि वनस्पति विज्ञान में एम.एस.सी. डिग्री या समतुल्य

(2) खरपतार विज्ञान/खरपतवार नियंत्रण के क्षेत्र में सात वर्ष का व्यावहारिक अनुभव :

टिप्पण 1—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

वांछनीय :

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेषज्ञता के क्षेत्र में डॉक्टरेट डिग्री।

(2) प्रशासनिक अनुभव

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरो जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

9

10

11

आयु : नहीं

शैक्षिक अर्हता : हां

टिप्पणी : अधिसूचना की पुनरीक्षित तारीख

को सहायक निदेशक (खरपतवार विज्ञान)

का पद धारण करने वाले विद्यमान पद-धारियों को इस अपेक्षा से छूट प्राप्त होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

66 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) द्वारा 33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

12

प्रोन्नति :

8000-13500 रु. के वेतनमान में ऐसा सहायक निदेशक (खरपतवार विज्ञान) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता



सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी आईक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति ( जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) :**

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त या कानूनी संगठन अर्द्ध सरकारी/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या परिवर्तों के ऐसे अधिकारी :

(क) (1) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या

(2) मूल संवर्ग/विभाग में जिन्होंने 8000-13500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्वाम्भ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं) :

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)।

प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति ( जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति ( जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में श्रृंखला सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के लिए )  
जिसमें भिन्नलिखित होंगे :

- |  |          |
|--|----------|
| 1. सचिव (कृषि एवं सहकारिता)                | —अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)          | —सदस्य   |
| 3. संयुक्त सचिव (प्रशा.)                   | —सदस्य   |
| 4. भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार   | —सदस्य   |
| 5. निदेशक/उप सचिव (वनस्पति संरक्षण प्रभाग) | —सदस्य   |

करार प्रतिनियुक्ति ( जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है ) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधन करने/शिथिल करने के लिए श्रृंखला सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के लिए )  
जिसमें भिन्नलिखित होंगे :

- |  |          |
|--|----------|
| 1. संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)        | —अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव (प्रशा.)                 | —सदस्य   |
| 3. भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार | —सदस्य   |

[नि. सं. 13-3/99-सीसी-II]

नीरा शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2008

G.S.R. 71.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Agronomist (Herbicides) Recruitment Rules, 1979, Senior Scientific Officer (Bioassay) Recruitment (Amendment) Rules, 1988 and Deputy Director (Weed Science) Recruitment Rules, 1993 insofar as they relate to the post of Deputy Director (Weed Science), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of

Deputy Director (Weed Science) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage under the Ministry of Agriculture, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Deputy Director (Weed Science) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person—

- (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Deputy Director (Weed Science)	3 (Three)* (2008) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 10000-325-15200	Selection	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible			Educational and other qualifications required for direct recruits		
7			8		
Yes			Essential :		
			(i) M.Sc. Degree in Agriculture with Agronomy/Weed Science/Weed Control as a subject or M.Sc. Degree in Botany or Agricultural Botany with Weed Science as a subject from a recognised University or equivalent		

(ii) Seven years practical experience in Weed Science/Weed Control.

**Note 1 :**

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :**

Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

**Desirable :**

(i) Doctorate Degree in the field of specialization from a recognized University.

(ii) Administrative experience.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
9	10	11
Age : No Educational Qualification : Yes <b>Note :</b> The existing incumbents holding the post of Assistant Director (Weed Science) on the date of revised notification will be exempted from this requirement.	1 year for direct recruits	66.67% promotion failing which by deputation (including short-term contract) 33.33% direct recruitment
In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption, grades from which Promotion/Deputation/Absorption is to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
<b>Promotion :</b> Assistant Director (Weed Science) in the pay scale of Rs. 8000-13500 with five years regular service in the grade. <b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully com-	<b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :</b> 1. Secretary (Agriculture and Cooperation) —Chairman 2. Joint Secretary (Plant Protection) —Member 3. Joint Secretary (Administration) —Member 4. Plant Protection Adviser to the Government of India —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short-term contract) and for amendment/revision of any provision of these recruitment rules.

12

pleted their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

**Deputation (including short-term contract) :**

Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertaking/Semi-Government/Autonomous or Statutory Organizations/Agricultural Universities/Recognized Research Institutions or Councils :

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre/Department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. [Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application].

13

5. Director/Deputy Secretary  
(Plant Protection) —Member

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :**

1. Joint Secretary  
(Plant Protection) —Chairman

2. Joint Secretary  
(Administration) —Member

3. Plant Protection Adviser  
to the Government of India—Member

[F. No. 13-3/99-PP-II]

NEERA SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2008

सा. का. नि. 73.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जनस्यक्ति संरक्षण, संग्रह एवं संप्रदाय निदेशालय में (तकनीकी राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1972, (कनिष्ठ कुत्तक विशेषज्ञ) भर्ती नियम, 1976, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव-निर्धारण) भर्ती नियम, 1991 एवं सहायक निदेशक (कीट विज्ञान/कृषि विज्ञान) भर्ती नियम, 1992 को जहां तक उनका संबंध सहायक निदेशक (कीट-विज्ञान) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकारों करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकारों से पहले किया गया है या करने से

सोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के अधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में सहायक निदेशक (कोट विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय सहायक निदेशक (कोट विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से दयाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति.—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिक्षित करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यापृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आदेशों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक निदेशक (कोट विज्ञान)	27 (सताइस) * (2008) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित (अननुसूचित)	8000-275- 13500 रु.	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों या निदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अध्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश

6

के लाहौल और स्पीति जिले तथा चन्वा जिले के पांग्रे उपखण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

7

8

नहीं

आवश्यक :

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता सहित कृषि विज्ञान में एम.एस.सी. डिग्री या कीट विज्ञान में विशेषज्ञता सहित प्राणिविज्ञान में एम.एस.सी. डिग्री या समतुल्य

(2) वनस्पति संरक्षण कार्य से संबंधित कीट विज्ञान/कृषि विज्ञान के क्षेत्र में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव

टिप्पण 1—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी को यह राय है कि उनके लिए अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन संप्रदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

वांछनीय :

(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या कृषि विज्ञान या कृषि कीट विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री या समतुल्य

(2) उन पदों पर जहां कृषि-विज्ञान से संबंधित कार्य किया जाना है, वहां कृषि विज्ञान के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री और व्यावहारिक अनुभव को वरीयता दी जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिबीधा की अवधि, यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों की प्रतिशतता

9

10

11

आयु : नहीं  
शैक्षिक अर्हता : नहीं  
लेकिन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री या वनस्पति विज्ञान या प्राणिविज्ञान विषय सहित स्नातक डिग्री या समतुल्य

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) 50% सीधे भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा

12

**प्रोन्नति :**

वनस्पति संरक्षण अधिकारी (कीट विज्ञान) जिसने 6500-10500 रु. के वेतनमान में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो।

**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :**

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त या कानूनी संगठन अर्द्ध सरकारी/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या परिषदों के ऐसे अधिकारी :

(क) (1) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या

(2) मूल काडर/विभाग में जिन्होंने 6500-10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और

(ख) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए कालम 8 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाल्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)

जिसमें निम्नलिखित होंगे :

- |  |          |
|--|----------|
| 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग        | —अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)          | —सदस्य   |
| 3. संयुक्त सचिव (प्रशा.)                   | —सदस्य   |
| 4. भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार   | —सदस्य   |
| 5. निदेशक/उप सचिव (वनस्पति संरक्षण प्रभाग) | —सदस्य   |

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्वायत्तीकरण के लिए) :

- |  |          |
|--|----------|
| 1. संयुक्त सचिव (व.सं.)                  | —अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव (प्रशा.)                 | —सदस्य   |
| 3. भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार | —सदस्य   |

[मिसिल सं. 13-3/99-पी.पी.-II]

गीत शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2008

G.S.R. 73.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Technical Gazetted posts) Recruitment Rules, 1972, (Junior Rodent Specialist) Recruitment Rules, 1976, Junior Scientific Officer (Bioassay) Recruitment Rules, 1991, and Assistant Director (Entomology/Nematology) Recruitment Rules, 1992, insofar as they relate to the post of Assistant Director (Entomology), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the

following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Entomology) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage under the Ministry of Agriculture, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Assistant Director (Entomology) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, the age limit, qualifications and other matters relating there shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person :

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant Director (Entomology)	27 (Twenty Seven)* (2008) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 8000-275-13500	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division



6

of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands' or Lakshadweep.

Whether benefit of added years of service admissible

Educational and other qualifications required for direct recruits

7

8

No

Essential :

(i) Master of Science degree in Entomology or Nematology or Master of Science degree in Agriculture with specialization in Entomology or Nematology or Master of Science degree in Zoology with specialization in Entomology or Nematology from a recognized University or equivalent.

(ii) Three years' practical experience in Entomology/Nematology related to Plant Protection.

Note 1 :

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :

Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable :

(i) Doctorate degree in Entomology or Nematology or Agricultural Entomology from a recognized University/Institute or equivalent.

(ii) For the posts where duties involve work in Nematology, Post-graduate degree and practical experience in the field of Nematology shall be preferred.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Period of probation if any

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

9

10

11

Age : No  
Educational Qualification : No  
[But must possess B.Sc. (Agriculture) with Botany or Zoology as one of the subject from a recognized University/Institute or equivalent.]

1 year for Direct recruits;  
and 2 years for promotees

50% promotion failing which by deputation (including short-term contract)  
50% by direct recruitment.

1283 GI/08-7

In case of recruitment by Promotion/ Deputation/Absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Com- mission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
<p><b>Promotion :</b> Plant Protection Officer (Entomology) in the pay scale of Rs. 6500-10500 with five years regular service in the grade</p> <p><b>Deputation (including short-term con- tract) :</b> Officers under the Central/State Govern- ments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autono- mous or Statutory Organizations/Agricul- tural Universities/Recognized Research Institutions or Councils :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Depart- ment; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6,500-10,500 or equivalent in the parent cadre/Department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.</p>	<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman</li> <li>2. Joint Secretary (Plant Protection) —Member</li> <li>3. Joint Secretary (Administration) —Member</li> <li>4. Plant Protection Adviser to the Government of India —Member</li> <li>5. Director/Deputy Secretary (Plant Protection) —Member</li> </ol> <p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Joint Secretary (Plant Protection) —Chairman</li> <li>2. Joint Secretary (Administration) —Member</li> <li>3. Plant Protection Adviser to the Government of India —Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.</p>
<p>The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application].</p>		

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2008

सा. का. नि. 74.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में संग्रह निदेशालय (तकनीकी राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1972, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय सहायक निदेशक (विस्तार) भर्ती नियम, 1989 वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव निर्धारण) भर्ती नियम, 1991 सहायक निदेशक (खरपतवार विज्ञान) भर्ती नियम, 1992 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के अधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में सहायक निदेशक (खरपतवार विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय सहायक निदेशक (खरपतवार विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा, जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : यह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की यावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अन्योन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक निदेशक (खरपतवार विज्ञान)	6 (छह)* (2008)	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'क') (राजपत्रित) (अनुसूचित)	8000-275-13500 रु.	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

6

**टिप्पणी :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निश्चित की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं

7

8

जी, हाँ

**आवश्यक :**

- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सस्य विज्ञान/खरपतवार विज्ञान/खरपतवार नियंत्रण के साथ कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री या खरपतवार विज्ञान विषय के साथ वनस्पति विज्ञान या कृषि वनस्पति विज्ञान में एम.एस.सी. डिग्री या समतुल्य।
- (2) खरपतवार विज्ञान/खरपतवार नियंत्रण के क्षेत्र में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

**टिप्पणी 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

**टिप्पणी 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

**वांछनीय :**

- (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विशेषता के क्षेत्र में डाक्टरेट डिग्री।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों की प्रतिशतता
--	-------------------------------	---

9	10	11
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ टिप्पणी : संशोधित अधिसूचना की तारीख को जनस्वपति संरक्षण अधिकारी (खरपतवार विज्ञान) के पोषक श्रेणी पद धारण करने वाले विद्यमान पदधारियों को इस अपेक्षा से छूट प्राप्त होगी।	सीधे भर्ती तथा प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।

12

**प्रोन्नति :**

6500-10000 रु. के वेतनमान में जनस्वपति संरक्षण अधिकारी (खरपतवार विज्ञान) जिसने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

**टिप्पणी :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनमें ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति ( जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) :**

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्द्ध सरकारी/स्वायत्त या संवैधानिक संगठन/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्था या परिपदों के ऐसे अधिकारी :

(क) (1) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में नियमित आधार पर सद्रत पद धारण किए हुए हों; या

(2) मूल कांडर/विभाग में जिन्होंने 6500-10500 रु. के या इसके समतुल्य वेतनमान में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तम्भ (8) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	प्रतिनियुक्ति (क्रियक अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय और इन भर्ती नियमों में किसी उपबंध में संशोधन/उम्मे शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।
1. अध्यक्ष/सदस्य-संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)	—सदस्य
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.)	—सदस्य
4. भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार	—सदस्य
5. निदेशक/उप-सचिव (वनस्पति रोग विज्ञान)	—सदस्य
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	
1. संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण)	—अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रशा.)	—सदस्य
3. भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार	—सदस्य

[मि. सं. 13-3/99-पी.पी.-11]

नीरा शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2008

**G.S.R. 74.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Technical Gazetted posts) Recruitment Rules, 1972, Assistant Director (Extension) Recruitment Rules, 1989, Junior Scientific Officer (Bioassay) Recruitment Rules, 1991 and Assistant Director (Weed Science) Recruitment Rules, 1992 insofar as they relate to the post of Assistant Director (Weed Science), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Weed Science) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage under the Ministry of Agriculture, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Assistant Director (Weed Science) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment of the said posts, the age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person —

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant Director (Weed Science)	6 (Six)* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service (Group 'A'), Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 8000-275-13500	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972			Educational and other qualifications required for direct recruits		
7			8		
Yes			Essential :		
			(i) M.Sc. Degree in Agriculture/Agronomy with Weed Science as a subject or M.Sc. Degree in Botany/Agricultural Botany with Weed Science as a subject from a recognised University or equivalent.		
			(ii) Three years practical experience in the field of Weed Science/Weed Control.		
			Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.		

8

**Note 2 :** Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

**Desirable :**

(i) Doctorate degree in the field of specialization.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
9	10	11
Age : No Educational Qualification : Yes	1 year for Direct recruits and Promotees	20% promotion failing which by deputation (including short-term contract) 80% by direct recruitment.

**Note :** The existing incumbents holding the feeder grade post of Plant Protection Officer (Weed Science) on the date of this revised notification will be exempted from this requirement.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

12

**Promotion :**

Plant Protection Officer (Weed Science) in the pay scale of Rs. 6500-10500 with five years regular service in the grade

**Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

**Deputation (including short-term contract) :**

Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous or Statutory Organization/Agricultural University/Recognized Research Institutions or Councils :

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/Department; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing of the receipt of application].



If a DPC exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

13

14

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of—**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Chairman/Member Union Public Service Commission     | —Chairman |
| 2. Joint Secretary (Plant Protection)                  | —Member   |
| 3. Joint Secretary (Administration)                    | —Member   |
| 4. Plant Protection Adviser to the Government of India | —Member   |
| 5. Director/Deputy Secretary (Plant Pathology)         | —Member   |

Consultation with Union Public Service Commission necessary for appointment to the post on each occasion and for amending and relaxing any provision of these rules.

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of—**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Joint Secretary (Plant Protection)                  | —Chairman |
| 2. Joint Secretary (Administration)                    | —Member   |
| 3. Plant Protection Adviser to the Government of India | —Member   |

[F. No. 13-3/99-PP. II]

NEERA SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2008

सा. का. नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (फार्म अधीक्षक) भर्ती नियमावली, 1985, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जैव-प्रभावोत्पादकता) भर्ती नियमावली, 1986 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के अधीन वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय में वनस्पति संरक्षण अधिकारी (खरपतवार विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय वनस्पति संरक्षण अधिकारी (खरपतवार विज्ञान) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा, जो इन नियमों से उगावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : यह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की वास्तव, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यापृति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा
1	2	3	4	5	6
वनस्पति संरक्षण अधिकारी (खरपतवार विज्ञान)	2 (दो) * (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ख'), राजपत्रित (अनुसूचिवीय)	6500-200- 10500 रु. टिप्पणी : वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जैव- प्रभावोत्पादकता तथा फार्म अधीक्षक के पद धारण करने वाले अधिकारियों की उपयुक्तता का आकलन विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा और यदि आकलन उपयुक्त पाया जाए तो उन्हें 6500-10500 रुपए के उन्नत वेतनमान में रखा जाएगा। यदि आकलन में अनुपयुक्त पाया जाता है तो वे 5500-9000 रुपए के संशोधित वेतनमान में चने रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ष उनके मामले का पुनर्विलोकन किया जाएगा।	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए जिरित की गई है।)

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल  
सेवा (पेंशन), नियम 1972 के नियम 30 के अधीन  
अनुज्ञेय है या नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

7

8

लागू नहीं

अनिवार्य :

- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सस्य विज्ञान/खरपतवार विज्ञान/  
खरपतवार नियंत्रण विषय के साथ कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री या खरपतवार  
विज्ञान नियंत्रण खरपतवार विषय के साथ कृषि वनस्पति विज्ञान में  
एम.एस.सी. डिग्री या समतुल्य
- (2) खरपतवार विज्ञान/खरपतवार नियंत्रण के क्षेत्र में दो वर्ष का व्यावहारिक  
अनुभव

8

टिप्पण 1 : अर्हताएं अनुभव सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जमातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब कब के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
9	10	11
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
लागू नहीं	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ( स्थायीकरण के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे— 1. भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार —अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक ( खरपतवार विज्ञान ) —सदस्य 3. वनस्पति संरक्षण प्रभाग की देखभाल करने वाले अवर सचिव —सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के लिए तथा इन नियमों, संविदा के किसी भी उपबंध को संशोधित करने/उसे शिथिल करने के लिए तथा इन भर्ती नियमों के किसी भी उपबंध को संशोधित करने उसे शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[मिसिल सं. 13-3/99-पी.पी.-II]

जीरा शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2008

G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Farm Superintendent) Recruitment Rules, 1985 and Senior Technical Officer (Bio-efficacy) Recruitment Rules, 1986, insofar as they relate to the post of Plant Protection Officer (Weed Science), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Plant Protection Officer (Weed Science) in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage under the Ministry of Agriculture, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Plant Protection Officer (Weed Science) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment of the said posts, age limit, qualifications and other matters relating there shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Plant Protection Officer (Weed Science)	2 (Two)* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service (Group 'B'), Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 6500-200-10500 Note : Suitability of officers holding the post of Senior Assistant (Bio-efficacy) and Farm Superintendent will be assessed by the Departmental Promotion Committee and if assessed suitable, they will be placed in the upgraded scale of pay of Rs. 6500-10500. If assessed unsuitable, they will continue to be in the revised scale of pay of Rs. 5500-9000 and their case would be reviewed every year.	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits
7	8
Not applicable	<p>Essential :</p> <p>(i) Master Degree in Agriculture/Agronomy/Weed Science/Weed Control or M.Sc. Degree in Agricultural Botany with weed Science/Weed Control as a subject from a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) Two years practical experience in the field of Weed Science/Weed Control.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption of vacancies to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable	2 years	Direct recruitment

In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption and percentage of the post to be filled by various methods	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13	14
Not applicable	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plant Protection Adviser to the Government of India —Chairman</li> <li>2. Jt. Director (Weed Science) —Member</li> <li>3. Under Secretary looking after Plant Protection Division —Member</li> <li>4. Chief Administrative Officer, Dte. of PPQ&amp;S —Member</li> </ol>	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing a person on deputation (including short-term contract) and while amending and relaxing any provision of these rules.

[F. No. 13-3/99-PP. II]  
NEERA SHARMA, Under Secy.

## ( पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग )

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2008

सा. का. नि. 76.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, दिल्ली दुग्ध योजना (कम्पाउंडर वर्ग 'ग') के भर्ती नियम, 2006 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, दिल्ली दुग्ध योजना (कम्पाउंडर वर्ग 'ग') भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, दिल्ली दुग्ध योजना (कम्पाउंडर वर्ग 'ग') के भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची के स्तंभ 8 के अधीन खंड (iii) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर और "वांछनीय" शीर्ष के अधीन निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

"(iii) राज्य भेषजा परिषद् से भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

वांछनीय : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के अधीन किसी अस्पताल या नर्सिंग होम या किसी औषधालय में कम्पाउंडर के रूप में 2 वर्ष का अनुभव"।

[फाइल सं. 3-1/2004-प्रशा. IV]

एम. आर. शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र तारीख 22 अप्रैल, 2006 में सा.का.नि. 88 तारीख 17 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 4th April, 2008

G.S.R. 76.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Delhi Milk Scheme (Compounder Group 'C'), Recruitment Rules, 2006 namely :

1. (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Delhi Milk Scheme (Compounder Group 'C'), Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Delhi Milk Scheme (Compounder Group 'C'), Recruitment Rules, 2006, in the Schedule, under Col: 8, for the existing entries in clause (iii) and under heading "Desirable" the following shall be substituted, namely :

"(iii) Should be registered as a Pharmacist with the State Pharmacy Council.

Desirable : Two years experience as Compounder in a Hospital or Nursing Home or any dispensary under Central or State Government or Public Sector Undertaking."

[F. No. 3-1/2004-Admn. IV]

M. R. SHARMA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India dated 22nd April, 2006 vide G.S.R. No. 88 dated the 17th April, 2006.